SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

Corporate office: F-32/3, Okhla Industrial Area, Phase- II, New Delhi- 110020

Registered Office & Works-A-26 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahar, U.P.-203205

Sandila Works: - Plot No B-2/6, B-2/7, UPSIDC Industrial Area- Phase IV, Sandila, Distt Hardoi, U.P.

E. id:-secretarial@shrigangindustries.com website:-www.shrigangindustries.com Tel No: 011-42524454

September 09, 2020

To,
The Manager
Corporate Relationship Department
BSE Limited
Floor 25, P J Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: 523309

Sub: <u>Intimation of the publication of Notice of 31st Annual General Meeting of the company for the FY 2019-2020 along with the notice of Book Closure and E-voting.</u>

Dear Sir,

Pursuant to regulation 30(6) read with sub para A of Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copy of the newspaper article as published in the following newspapers:

- 1. The Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt thereof.

Thanking you Yours truly,

For Shri Gang Industries and Allied Products Limited

ALLIED PRODUCTS LTD.

Kanishkardainy Secretary) (Company Secretary)

Encl.: a/a

टेलीफैक्स: +91-11-27132054, ई-मेल: efficientindustrial@gmail.com

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 36 वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. में कम्पनी अधिनयम, 2013 के लाग होने वाले प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सिहत) तक एजीएम के उद्देश्य से

सचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.efficientindustrial.com के साथ ही साथ

मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट https://www.msei.in/ पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड

क) 36वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण एवं विशिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा,

ख) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को (9.00 बजे पूर्वा.) आईएसटी में शुरू होगी। ग) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 सितम्बर, 2020 को (5.00 बजे अप.) आईएसटी में बंद होगी।

trial@gmail.com पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि वे व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान के लिये वे अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे वीसी/ ओएवीएम सुविधा द्वारा 36वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा पुनः मतदान

iii) एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य तथा जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

v) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2020 को सदस्यों/ लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा सभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये

तथा पास्वर्ड प्राप्त करने तथा सचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान के लिये ई-वोटिंग के लिये ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रियाः

यदि शेयर भौतिक पद्धति में धारित हो तो फोलियो नं.. शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट तथा बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्वतः

का विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गइ प्रति) beetalrta@gmail.com पर कपया उपलब्ध कराएँ।

जाएं। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति. भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकत नहीं कराये हों. के लिये रिमोट वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। यह विवरण कम्पनी की वेबसाईट www.efficientindustrial.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट http://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा। एजीएम की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान (''इन्स्टा पोल'') की सुविधा उपलब्ध होगी तथा एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे इन्स्टा पोल द्वारा एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे। ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिये लागिन विवरण सदस्यों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं हो अथवा जिनके इंमेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकत नहीं हों. वे एजीएम की सचना की टिप्पणियों में दिये गये निर्देशों का अनुसरण कर लागिन क्रीडेन्शियल जनरेट कर सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित होने के लिये भी उसी लॉगिन क्रीडेन्शियल का उपयोग किया जा

क्योंकि कोई अंतिम लाभांश नहीं है, लाभांश मैंडेट जमा करने से संबंधित उद्घाटन वांछित नहीं है सदस्यगण, यदि ऐसा चाहें, डप्लिकेट वार्षिक रिपोर्ट के लिये कम्पनी से अनरोध कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सहित एजीएम में ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा समस्या नामः श्री पुनीत मित्तल (महा प्रबंधक) ई-मेल आईडी: beetalrta@gmail.com, फोन: 011-29961282, फैक्स नं.: 011-

एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड के लिये

तिथि: 7 सितम्बर, 2020 स्थानः नई दिल्ली

DIN: 01736079

मोदी नेचरल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 405, दीपाली बिल्डिंग, 92 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 दूरभाष : 011-41889999, ई-मेल : investors@modinaturals.com वेबसाइट : www.modinaturals.com (सीआईएन : L15142DL1974PLC007349)

46वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा ई-वोटिंग की सुचना एतद्वारा सचना दी जाती है कि 46वीं एजीएम में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन हेत कम्पनी के सदस्यों की 46वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. आयोजित की जानी निर्धारित है।

कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एक पूर्वापेक्षित सावधानी है और कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'') ने अपने परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के सन्दर्भ में तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीसी) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमित प्रदान की है। कम्पनी अधिनयम, 2013 ("अधिनियम" के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का मान्य स्थल कम्पनी

उपर्युक्त एमसीएम परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण सहित वर्चुअल एजीएम में लेन-देन किये जाने वाले निर्धारित प्रकार की सूचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से 8 सितम्बर, 2020 को भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी या कम्पनी के साथ पंजीकत हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ अभी तक पंजीकत नहीं कराये हैं उन्हें सचित किया जाता है कि देश में डाक सेवाओं के संचालन में न होने के कारण कम्पनी ई-मेल के अतिरिक्त शेयरधारकं के पास दस्तावेजों की सेवा उपलब्ध करान में समर्थ नहीं होगी। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट wvw.modinaturals.org, स्टॉक एक्सचेजों अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है तो तो वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता पंजीकत कराने हेत निम्नलिखित निर्देशों का अनपालन करें : भौतिक शेयरधारकों हेतु : कृपया ई-मेल द्वारा फोलियो नं., शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति

(सामने तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) investors@modinaturals.com अथवा admin@skylinerta.com पर भेजें। डीमैट शेयरधारकों हेतु : कृपया ई-मेल द्वारा डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी, नाम, खाता विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति). आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) investors@modi-

naturals.com अथवा admin@skylinerta.com पर भेजें। शेयरधारक कपया डीपी द्वारा प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार ई–मेल आईडी के पंजीकरण हेत अपने डिपॉजिटरी भागीदार से सम्पर्क करें।

कम्पनी अधिनियम तथा नियमों के अनुपालन में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएँ ग्रहण की हैं।

अधिनियम तथा नियमों के अनुसार वांछित विवरण निम्नलिखित प्रकार हैं : ।. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2020 है रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी और मंगलवार, 29 सितम्बर 2020 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान हेतु सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी।

. सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के उनके शेयरों के अनुपात . कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है वह बैठक की सूचना मं ई-वोटिंग हेतु उल्लिखित निर्देशों, जो कम्पनी की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है,

का पालन करके रिमोट ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। 4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है वे वर्चअल एजीएम में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। वर्चुअल एजीएम में मतदान की रीति बैठक की सूचना में उल्लिखित है और यह कम्पनी की वेबसाइट www.modinatrals.org, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है। . सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार के उपयोग के पश्चात भी बैठक में भाग ले सकता है किन्त उसे वर्चअल बैठक में पनः मतदान की अनमति नहीं दी जायेगी।

. बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक के न्यूनतम 30 मिनट पूर्व तक खुली रहेगी और बैठक की समाप्ति के 30 मिनट पश्चात तक बन्द नहीं की जायेगी।

7. कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे रिमोट ई-वोटिंग तथा वर्चुअल बैठक के दौरान ई-मेल द्वारा मतदान की सविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

8. कम्पनी ने वर्चअल बैठक में निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए श्री दीपक कुमार बंसल, मैसर्स दीपक बंसल एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश के लिए सदस्य कृपया वार्षिक आम बैठक की सूचना में ''नोट'' खण्ड का सन्दर्भ लें। यदि आपको ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या समस्या है तो www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें। सदस्य ई-वोटिंग सुविधा वर्चुअल एजीएम में मतदान से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए श्री अंकित अग्रवाल, कम्पनी सचिव से investors@modinaturals.com, दूरभाष : 011-41889999 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

यह सचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम, 2015 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी। कृते मोदी नेचुरल्स लिमिटेड

तिथि : 8 सितम्बर, 2020

अक्षय मोदी संयुक्त प्रबन्ध निदेशक डीआईएन : 0334114

अजन्ता सोया लिमिटेड सीआईएन: L15494RJ1992PLC016617 कार्यालयः एसपी-916, फेज-III, इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला अलवर, भिवाड़ी-301019, राजस्थान दुरभाष नं.: 911-6176727, 911-6128880

> दूरभाष नं.: 91-11-42515151, फैक्स: 91-11-42515100 वेबसाइटः www.ajantasoya.com, ई-मेल: cs@ajantasoya.com

29वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने

को 12.30 बजे अप, में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साधारण सर्क्युलर्स तिथि 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 05 मई, 2020 ('एमसीए सर्क्युलर्स') तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020 ('सेबी सर्क्युलर') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा हीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के

संबंधित सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सुचना तथा उस पर निदेशकों के रिपोर्ट, ऑडिटरों तथा उसके साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य वांछित दस्तावेजों जिसमें वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की प्रक्रिया तथा तरीका, ई-वोटिंग तथा अन्य दस्तावेजों शामिल हैं, के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट 2019–2020 ई–मेल द्वारा 7 सितम्बर, 2020 को ऐसे सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिनके ईमेल पते कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज हैं। एमसीए के सर्क्युलर/रों तथा सेबी सर्क्युलर के माध्यम से सदस्यो को 29वीं एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजे जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.ajantasoya.com तथा स्टॉक एक्सचैंज जहां कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हीं की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com के साथ हीं साथ नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल

वीसी/ओएवीएम सेवाऐं उपलब्ध कराई जाएगी।

'नियमवाली') के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) वेनियमन, 2015 (''सुचीयन विनियमन'') के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ''अधिनियम'') की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान –वोटिंग (इन्स्टा पोल) की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है। तदनुसार, एजीएम की सूचना में वर्णित व्यावसायिक मदों को नेशनल सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रानिक वोटिंग की सुविधाओं द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा पूर्बंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा. केवल वे हीं रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम द्वारा 29वीं एजीएम में शामिल होने तथा 29वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। सदस्यगण पनः ध्यान रखें किः क) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी।

जायेगी; ग) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी; घ) ई-वोटिंग के लिये बुधवार, 23 अप्रैल, 2020 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित किया गया है। मताधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मुल्य पर की जायेगी; ड.) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं एवं कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2020 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनरोध भेजकर युजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से हीं पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वे व्यक्ति अपना पास्वर्ड भूल गये हैं तो वे www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का प्रयोग कर अपना पास्वर्ड फिर से सेट कर सकते हैं; अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर एनएसडीएल से सम्पर्क कर सकते हैं; छ) जिन सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर दिये हों वे भी वीसी/ओएवीएम साधनों द्वारा एजीएम में उपस्थित एवं शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से मतदान की अनमति नहीं दी जायेगी: ज भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों अथवा जिन्होंने कम्पनी/आरटीए के पास अपने ईमेल आईडी पंजीकत नहीं कराये हों, वे अपना ईमेल आईडी पंजीकत कराकर रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं। सदस्यों से आग्रह है कि अपने फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः

फाइनांसिय सर्विसे प्रा. लि. के पास compliances@.skylinerta.com पर ई-मेल द्वारा भेजकर अपना ईमेल

पुस्तक बंद होनाः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन, 42 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की सदस्यों वे रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बधवार, 30 सितम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली 29 वी वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे। ई–वोटिंग के निर्देशों के लिये सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सुचना में दी गई निर्देशों को पढ़े।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग से जुड़ी किसी भी प्रश्नों/समस्याओं के लिये सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिये Frequently Asked Questions तथा शेयरधारकों के लिये रिमोट ई वोटिंग यजर मैन्यअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें या सश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, लोअर परेल, मुम्बई-400013, टेली नं. 022-24994545, 022-24994559 पर सम्पर्क करें या evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर ईमेल करें।

linerta.com पर या 011-40450193-197 पर सम्पर्क करें। बोर्ड के आदेश से

अजन्ता सोया लिमिटेड के लिये हस्ता/ सुशील गोयल (प्रबंध निदेशक

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : सी/515, कनिकया जिलियन, एलबीएस रोड तथा सीएसटी रोड का जंक्शन

बीकेसी एनेक्सी, निकट इक्विनॉक्स, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070, दूरभाष: 022- 26544000 पंजीकत कार्यालयः सं. १, एमपी नगर, प्रथम गली, कोंगू नगर एक्स., तिरुपुर-641607 दूरभाषः 04212221144

श्री दिनेश कुमार (मैसर्स गुरुजी ऑटो इण्डस्ट्रीज के प्रोपराइटर) ए-317, डबुआ नवादा रोड, निकट भारत गैस एजेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 श्री दिनेश कुमार (जमानती)

म.नं. पी-189, कृष्ण विहार, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110066 श्री दिलीप कुमार (जमानती)

म.नं. ८/१६, एच-१९, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005 प्रिय श्रीमान

के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निमाण के तहत सचना ("सरफाएशी अधिनियम") (1) मैसर्स गुरुजी ऑटो इण्डस्ट्रीज (इसके पश्चात "प्रमुख कर्जदार" सन्दर्भित), पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. ए-317, डबुआ नवादा रोड, निकट भारत गैस एजेन्सी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 के निवेदन पर पत्र एलएण्डटी फाइनेंस लि. (इसके पश्चात एलएण्डटी सन्दर्भित) द्वारा दिनांक 23.02.2016

पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन

उल्लिखित नियम एवं शर्तों पर रु. 54,48,818/- (इसके पश्चात सामृहिक रूप से 'ऋण' सन्दर्भित स्वीकत किये गये थे। 2. ऋण के कर्जदार होने के नाते आपने यहाँ अनुसूची में संलग्न अधिक स्पष्ट वर्णित तथा यहाँ नीचे परिशिष्ट

ा में अंकित के अनसार प्रथम प्रभार द्वारा एलण्डटी के पक्ष में चल सम्पत्तियों का दष्टिबन्धक किया। (3) उपर्युक्त ऋणों का भुगतान नहीं किया गया और अनिस्तारित बने रहे। इसके परिणामस्वरूप एलएण्डटी

ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत आस्ति वर्गीकरण से सम्बन्धित निर्देशों तथा निर्देशों के अनसार खार को 24 दिसम्बर, 2016 से गैर-निष्पादन आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। पनः एलएण्डटी को एसाइनमेंट करार दिनांक 24 सितम्बर, 2019 के माध्यम से ओमकारा पीएस 10/2019-20 ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता में कार्यरत ओमकारा एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (ओएआरपीएल के पक्ष में समस्त प्रतिभृतियों, बंधकों, सम्बद्ध व्यक्तिगत गारटीं सहित निहित प्रतिभृतियों के साथ ऋण

उत्पन्न प्रमुख कर्जदार द्वारा ऋणों/बकाया कर्जी तथा देयताओं को पूर्णतः एसाइन किया है। कपया ध्यान

कि ओएआरपीएल सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकत एक प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण कम्पनी है। कथिथ एसाइनमेंट के अनुसार ऋणों से सम्बद्ध वित्तीय इंस्ट्रमेंट के तहत एसाइनमेंट तथा लाभों वे एसाइनमेंट सहित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं हित, ऋणों से सम्बद्ध किसी आकरिमक अधिकार वे साथ सम्बद्ध लाभ निहित प्रतिभृतियों सहित ओएआरपीएल के पक्ष में एसाइन किये गये थे। कथित एसाइनमेंट करार के अनुसार, ओएआरपीएल पूर्ण और एकमात्र स्वामी बन गया और एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ऋणों या उसके उसके भाग के पुनर्भुगतान को ग्रहण करने, अपने स्वयं के नाम पर ऐसी किसी अन्य

कार्यवाही या मकदमे को दर्ज करने तथा एसाइनी के रूप में ऋणों की वसली के उददेश्य से वांछित ऐसी

कोई अन्य कार्यवाही, जैसा मामला हो, करने का अधिकारी है। परिशिष्ट-1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभृतियों द्वारा विधिवत प्रतिभृत ऋणों के परिप्रेक्ष्य में आपकी देनदारियं को पुरा करने की अक्षमता तथा आपके खाते को गैर-निष्पादन आस्ति के रूप को देखते हुए, एतद्वार हम सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आप उपर्युक्त पताधारी को नवीन सचना देते है और यहाँ परिशिष्ट 2 में उल्लिखित विवरणों के अनुसार 28 जुलाई, 2020 तक कुल रु. 96,29,474/ (रुपये छियानबे लाख उनतीस हजार चार सौ चौहत्तर मात्र), जो 28 जुलाई, 2020 तक ऋण के रूप में बकाया राशि है, का भुगतान करने के लिए कहते हैं। एतद्वारा आपको इस सुचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भगतान तथा/अथवा वसुली तक 18% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज एवं मासिक रेस्ट्स सहित अदा करने के लिए कहा जाता है।

(7) यदि आप कथित 60 दिनों की अवधि के भीतर इससूचना के अनुसार कथित राशि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो हम आपके पूर्ण जोखिम, लागतों तथा परिणामों पर बिना किसी न्यायालय य अधिकरण के हस्तक्षेप के यहाँ परिशिष्ट-1 में अधिक स्पष्ट वर्णित प्रतिभृति हितों के प्रवर्तन हेत् सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी एक अधिकार का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र होंगे, जिसे कुपया ध्यान में रखें।

(8) हम आपका ध्यान सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकृष्ट करते हैं जिसकी शर्तों के अनुसार आपको ओएआरपीएल की पूर्व लिखित सहमित के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा रूप रं (सामान्य प्रकार्य को छोड़कर) परिशिष्ट-1 में वर्णित किसी भी प्रतिभृत आस्ति अथवा उसके भाग को अन्तरित करने से वंचित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(13) में उल्लिखित उपर्यक्त प्रावधानों का गैर-अनपालन सरफाएशी अधिनियम, की धारा 29 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। 9) कपया ध्यान दें कि यह माँग सचना बिना किसी पर्वाग्रह के है और यह ऐसे किसी अन्य अधिकारों य

उपचारों के वेवर के रूप में गठित नहीं होगी जो ओएआरपीएल के स्वामित्व की राशि के परिप्रेक्ष्य भावी माँग के अधिकार को सीमित किये बिना ओआरएपीएल के अधिकार में होगी।

आपका विश्वासपा मुख्य प्रबन्धक एवं अधिकृत प्राधिकारी (ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रवशन प्राइवेट लिमिटेड

तिथि : 09.09.2020 स्थान : मुम्बई ओमकारा-पीएस 10/2019-20 ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्यरत

प्रतिभृत आस्तियों का विवरण साइलेंट डीजी सेट 82.5 केवीए तीन फेज 2 सीएनसी लेथ मशीन-मॉडल Vx165 - 3 नग परिशिष्ट-2 28.07.2020 तक बकायों का विवरण

एसाइनमेंट करार के अनुसार 31.08.2019 तक बकाया 81,85,057/ जोड़ा : 18% वाषिक ब्याज 14,44,417/-28.07.2020 तक कुल 96,29,474/-28 जुलाई, 2020 तक कुल बकाया राशि रु. 96,29,474/- (रुपये छियानबे लाख उनतीस हजार चा

सौ चौहत्तर मात्र)। कृपया ध्यान दें कि यह पुनर्भुगतान तथा/अथवा वसूली तक मासिक रेस्ट्स सहित उर पर 18% चक्रवृद्धि ब्याज के अतिरिक्त है।

> अपोलो टाइकोट ट्यूब्स लिमिटड पंजीकृत कार्यालय : 37 हरगोविन्द एन्कलेव विकास मार्ग, दिल्ली-110092

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74900DL1983PLC014972 दरभाष : 91-11-22373437. फैक्स : 91-11-22373537

वेबसाइट : www.apollotricoat.com ई-मेल : info@apollotricoat.com 38वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं ई-वोटिंग की सदस्यों को सूचना यह हमारी पूर्व की सुचना दिनांक 4 सितम्बर, 2020 की निरन्तरता में है जिसके द्वारा अपोलो ट्राइकोर

ट्यूब्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई, 2020 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियम''] तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020179 दिनांक 12 मई. 2020 (''सेर्ब परिपत्र'') के अनुपालन में निदेशक मण्डल ने 38वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से कम्पनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') मंगलवार 29 सितम्बर, 2020 को 2.00 बजे अप. आयोजित करने का निर्णय किया है।

38वीं एजीएम की सुचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एव ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरए उन सभी सदस्यों के पास ई-मेल द्वारा सोमवार, 7 सितम्बर, 2020 को भेजे जा चुके हैं जिनके ई-मेल पते एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथव उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार (''डीपी'') के साथ पंजीकृत हैं, और यह कम्पनी की वेबसाइट (www.apollotricoat.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com तथ www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध हैं।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा सेर्ब (एलओडीआर) विनियम, के विनियम 44, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक-2 तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को 38वीं एजीएम में निर्धारित समस्त संकल्पों प सीडीएसएल द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध की गयी है।

रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 (10.00 बजे प्रात) प्रारम्भ होगी और सोमवार, 28 सितम्बर 2020 (5.00 बजे सायं) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे भी एजीएम वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं किन्तु एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविध

के माध्यम से पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त बाद में सदस्य को इसे परिवर्तित करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

हेत् विस्तृत निर्देश 38वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध हैं। सम्पूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए कम्पनी द्वारा श्री जितन गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्य सं. : एफसीएस 5661, सीओपी नं. 5236) को संवीक्षक के रूप मे

सदस्यों के मताधिकार मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 (''कट-ऑफ तिथि'') तक कम्पनी की प्रदत्त

इक्विटी शेयर पुँजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे ही एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सूचना को केवल सुचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और 35वीं एजीएम की इलेक्ट्रॉनिक सुचना भेजे जाने के उपरान्त

कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालॉंकि यदि वह ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम अपन मतदान करने के लिए वह अपने वर्तमान लॉगिन-आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है तो ई-वोटिंग हेत् लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करें :

भौतिक धारिता के मामले में कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (सामने तथा पीछे), पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा info@apollotricoat.com/ investor@bigshareonline.com पर भेजें।

कपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक का लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल-16 अंक का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा info@apollotricoat.com /investor@bigshareonline.com पर भेजें।

पुनः अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (एलओडीआर)

विनियमों के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका 38वीं एजीएम के उद्देश्य हेतु बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी मतदान के परिणाम की घोषणा एजीएम की समाप्ति के अडतालीस घण्टे के भीतर अर्थात 1 अक्टूबर

2020 को या इससे पूर्व कर दी जायेगी और इस प्रकार घोषित परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पर्न की वेबसाइट (www.apollotricoat.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर अपलोड कर दिये जायेंगे। एजीएम में शामिल होने या ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ या समस्या के लि

सदस्य www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स ("एफएक्य") तथा ई-वोटिंग मैनअल का सन्दर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslin dia.com पर सम्पर्क करें या श्री नितिन कुन्दर (022- 23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से सम्पर्क करें।

कृते एवं हिते अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड सरभि अरोडा

रजिस्टर्ड ऑफिस: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

44वीं वार्षिक साधारण समा, बुक क्लोजर अवधि और ई—वोटिंग जानकारी की सूचना एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 44वीं वार्षिक साधारण समा (एजीएम) मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को सुबह 11.30 बजे वीडियो कॉफ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑंडियो विज्ञल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम की सूबना में निहित व्यवसायों के संचालन हेत् आयोजित की जायेगी। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय "एमसीए") के द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 15, जुन, 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साध एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना 'इंवेस्टर्स' खण्ड के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org और स्टॉक एक्सबेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिगिटेड (''केफिनटेक'' या ''आरटीए'') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी एतदद्वारा यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और सेबी

जिनके नाम भौतिक शेयर के संबंध में कंपनी के रजिस्टर में होंगे और डिमैटेरियालाइज्ड शेयर के संबंध में जिनके नाम शेयरों के "लाभार्थी खामी" के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) द्वारा प्रस्तुत लामार्थी स्वामी के स्टेटमेंट में मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को कारोबार खत्म होने के समय दिखाई देते हैं। लाभांश का भुगतान लागू दरों पर टैक्स ऑफ सोर्स (टीडीएस) कटौती के अधीन होगा। टीडीएस से छूट के लेए विवरण और दस्तावेज ऑनलाइन https://ris.kfintech.com/form/15 पर मंगलवार, 22 सितम्बर 2020 को साथं 5.00 बजे (भागास) तक या उससे पूर्व अपलोड किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए एजीएम की सूचना देखें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014

के नियम 20, और सेवी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार और एमसी सर्कुलर के अनुसार केफिनटेक द्वारा उपलब्द कराये गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग) का प्रयोग करके सदस्यों को एजीएम की नोटिस में निहित सभी संकल्पों पर वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है।

अत: एतदद्वारा सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 08.09.2020

. रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 (प्रातः 9.00 बजे, भामास) प्रारम्भ होगी और सोमवार, 28 सितंबर, 2020 (सायं 5.00 बजे, भागास) समाप्त होगी। इसके बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग अक्षम कर दिया जायेगा और तत्काल यह सुविधा प्रधान कर दिया जायेगा।

कट-ऑफ डेट मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 होगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार 22 सितम्बर 2020 के भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियालाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक ही अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान करने के बाद सदस्य को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना इलेक्टॉनिक रूप में भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि,

22 सितम्बर, 2020 से पहले शेयर हासिल कर कंपनी का सदस्य बनता है तो वह कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिनटेक से अपना युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदयपि जो सदस्य पहले से ही केफिनटेक के साथ पंजीकृत हैं, वे मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किया है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना मतदान करने के हकदार नहीं होंगे

5. श्री सचिन अग्रवाल, प्रैविटसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता सं. F5774) मेसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएटस कंपनी सेक्रेट्रीज के पार्टनर, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए स्कृटिनाइजर नियुक्त किया गया है।

ादस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढें। ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी मामलों में कृपया केंफिनटेक वेबसाइट पर जायें और किसी अन्य पूछताक्ष के मामले में सदस्यों को श्री एस.वी. राजू, उप महाप्रबंधक, कैफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट सं. 31–32, गचीबॉवली फिनांसियल डिस्टिक्ट, नानकरामगडा, हैदराबाद–500032 से निर्धारित ई–मेल आईडी einward.ris@Kfintech.com पर या निम्नलिखित टेलीफोन नम्बर 040 6716 2222, 18003454001 (टोलफ्री) और फैक्स नं. 040 23420814 पर संपर्क करने का अनुरोध किया कते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

श्री गंग इंडस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्टस लिमिटेड CIN: L01112UP1989PLC011004

पंजीकृत कार्यालयः ए—28 यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, यूपी. 203205 ईमेल:-secretarial@shrigangindustries.com, वेबसाइट:-www.shrigangindustries.com, फोन: 05735-222568 /011-4252445**4**

31वीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तक बंद तथा ई-वोटिंग जानकारी की सदस्यों को सूचना

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 के अनुपालन् में एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कंपनी की 31वी सालाना आम बैठक की सूचना में उल्लेखित व्यवसाय को करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विज्ञुअल मीन्स ('ओएवीएम') की सुविधा से बुधवार सितम्बर 30, 2020 को दोपहर 03:30 बजे आर्योजित

एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुसार, जिन सदस्य के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी") के साथ पंजीकृत है उन्हें ई वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ वित्तीय वर्ष 2019-2020की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की एजीएम. की सचना सोमवार, 07 सितंबर, 2020 को ई-मेल के माध्यम से सभी को भेज दी गई है । और ये सब र्कपनी की वेबसाइट www.shrigangindustries.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर

अधिनियम 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तक **गुरुवार, 24** सितंबर, 2020 से बुधवार, 30 सितंबर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

2014 के नियम 20. और सेबी (सचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के वेनियम 44 के प्रावधानों के अनेपालन में कंपनी के सदस्यों को एजीएम सचना में दिए गए संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से 'रिमोट ई-वोर्टिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है।

29 सितंबर, 2020 शाम 5.00 बजे तक चलेगी। इस ॲवधि के दौरान, सदस्यें इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। 29 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रोनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद सीडीएसएल द्वारा सेबी (सचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी

अधिनियम 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के अनपालन में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण पस्तक गरुवार. 24 सितंबर, 2020 सें ब्रथवार, 30 सितंबर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,

संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए केंद्रीय डिपॉजिटरी सेंर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारों प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से 'रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है। दूरस्थ ई-वोर्टिंग की अवधि 27 सितंबर, रविवार को सुबह 10.00 बजे से शुरू होकर मंगलवार 29 सितंबर, 2020 शाम 5.00 बजे तक चलेगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से

निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ज़िन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है. वे भी वीसी ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीऐम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-

एक बार सदस्य एक प्रस्ताव पर मतदान करते हैं तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-मतदॉन के लिए विस्तृत निर्देशें, की सूचना में प्रदान किये गए हैं।

23 **सितंबर, 2020 ('कट-ऑफ तारीख)** के रूप में सदस्यों के मतदान अधिकार कंपनी की चुकता इक्रिटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्रिटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तारीख पर कंपनी का सदस्य है, एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग का उपयोग कर के एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए पात्र है एक व्यक्ति जो कट ऑफ तारिख पर सदस्य नहीं हैं वो इस नोटिस को केवल सूचना जानकारी के उद्देश्य से समझैं।

अधिग्रहण कर कंपनी 'का' सदस्य बनता है और कटऑफ तिथि पर कंपनी के शेयर का धारक है वो <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति दूर्स्थ ई₋वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएस्एल् के साथ पंजीकृत है, तो मौजुदा उपयोगकर्ता ओईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए

वे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारक हैं या जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है. वे निम्नलिखित प्रक्रिया के अनसार ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्ते कर सकते हैं:

कॉपी और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी ई-मेल द्वारा कंपनी को secretarial@shrigangindustries.com पर भेजें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी

यदि आपके पास ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया www.evotingindia.com के डाउँनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यु) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या 022-23058542 पर सीडीएसएल से संपर्के करें। ई-वोटिंग सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए, श्री राकेश दल्वी, पूबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वीं

स्कृटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणामों को कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

कंपनी के शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए कंपनी को ISIN (INE241V01018) आवंटित किया गया है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने शेयर को डीमैटरियलाइज्ड करवाएं।

> श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्टस लिमिटेड के लिए हस्ता./-कनिष्का जैन (कंपनी सचिव)

पंजी. कार्यालय: 3/14 ए. 01ला तल. विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 वेबसाईटः www.efficientindustrial.com

जायेगी जिसमें 36वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट करियर तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 5 सितम्बर, 2020 को सभी सदस्यों को भेज दी गई है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

घ) कपया ध्यान रहे कि उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी जायेगी। ड.) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा efficientindus-

सदस्यगण ध्यान रखें किः

) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान के लिये सीडीसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनमति नहीं दी जायेगी

के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

) ऐसे शेयरधारकों जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं हों, के लिये यूजर आईडी

सत्यापित प्रति) ई-मेल द्वारा beetalrta@gmail.com पर कृपया उपलब्ध कराएँ।) यदि शेयर डीमैट पद्धति में धारित हो तो डीपीआईडी- सीएलआईडी (16 डिजिट का डीपीआईडी सीएलआईडी अथवा 16 डिजिट का लाभभोगी आईडी), नाम, क्लाइन्ट मास्टर अथवा समेकित खाता

ङ) ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा अपना मतदान करने के लिये कृपया http://www.evotingindia.com पर

29961284 को संबोधित की जा सकती है।

प्रबंध निदेशक सह सीएफओ

पंजीकृत कार्यालय : 37 हरगोविन्द एन्कलेव विकास मार्ग, दिल्ली-110092

दूरभाष : 91-11-22373437. फैक्स : 91-11-22373537 वेबसाइट : www.aplapollo.com ई-मेल : investors@aplapollo.com 35वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं ई-वोटिंग की सदस्यों को सुचना यह हमारी पूर्व की सूचना दिनांक 3 सितम्बर, 2020 की निरन्तरता में है जिसके द्वारा एपीएल अपोलो ट्यूब्र लेमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम''

के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र स 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 202 '''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियम''] तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र स SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020179 दिनांक 12 मई, 2020 (''सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में निदेशक मण्डल ने 35वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से कम्पर्न की 34वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 4.00 बजे अप. आयोजित करने

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74899DL1986PLC023443

35वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग सिंहत वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण उन सभी सदस्यं के पास ई-मेल द्वारा सोमवार, 7 सितम्बर, 2020 को भेजे जा चुके हैं जिनके ई-मेल पते एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथवा उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार (''डीपी'') के साथ पंजीकृत हैं, और यह कम्पनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com), स्टॉव एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी

सर्विसेज लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध हैं। कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा सेब (एलओडीआर) विनियम, के विनियम ४४, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक-2 तथ एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को 35वीं एजीएम में निर्धारित समस्त संकल्पों पर सीडीएसएल द्वार प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से सदस्यों को इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सविधा उपलब्ध की गयी है।

रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 (10.00 बजे प्रात) प्रारम्भ होगी और सोमवार, 28 सितम्बर 2020 (5.00 बजे सायं) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे भी एजीएम

वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं किन्तु एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा वे माध्यम से पनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त बाद में सदस्य को इसे परिवर्तित करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु विस्तुत

निर्देश 35वीं एजीएम की सचना में उपलब्ध हैं।

सम्पूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए कम्पनी द्वारा श्री जितन गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्य सं. : एफसीएस 5661, सीओपी नं. 5236) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों के मताधिकार मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 (''कट-ऑफ तिथि'') तक कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे ही एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सविधा ग्रहण करने के पात्र

होंगे। कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य र कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और 35वीं एजीएम की इलेक्ट्रॉनिक सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindian.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि वह ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम अपना मतदान करने के लिए वह अपने वर्तमान लॉगिन-आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर

यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है तो ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करें

भौतिक किपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड धारिता प्रित (सामने तथा पीछे), पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित रकैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा कम्पनी/आरटीए की ई-मेल आईडी पर भेजें।

डीमैट कपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक का लाभार्थी आईडी अथव

धारिता एनएसडीएल-16 अंक का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा

समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की

स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वार कम्पनी/आरटीए की ई-मेल आईडी पर भेजें। पुनः अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (एलओडीआर) विनियमं के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण परितका 35वीं एजीएम के उददेश्य हेतु बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी और घोषित परिणाम तथा संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट

(www.apollopipes.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर अपलोड कर दी जायेगी। मतदान के परिणाम की घोषणा एजीएम की समाप्ति के अडतालीस घण्टे के भीतर अर्थात 1 अक्टबर, 2020 कं या इससे पूर्व कर दी जायेगी और इस प्रकार घोषित परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर अपलोड

एजीएम में शामिल होने या ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ या समस्या के लिए सदस्य www.evotingindian.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्य") तथा ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindian.com पर सम्पर्क करें या श्री नितिन कुन्दर (022- 23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से सम्पर्क करें। कृते एवं हिते

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड

ह./

कॉर्पो. कार्यालय : 12वीं मंजिल, बिगजोस टॉवर, ए-८, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110034

तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सुचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 29वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर, 202

की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट द्वार रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश: कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन नियमावली, 2014

ख) मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी सत्यापित स्कैन की गई प्रति को उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति कम्पनी के ईमेल पते cs@ajantasoya.com पर अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) स्काईलाइन

स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिये मै, आर एंड डी कम्पनी सेक्रेटीज, दिल्ली श्री देववृत देवनाथ, पूर्ण-कालिक प्रैक्टिश में कम्पनी सचिव, को पूर्यवेक्षक नियक्त किया गया है।

सभा में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिये कृपया श्री लोकेश शर्मा से lokesh@sky-

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 07.09.2020 (DIN:00125275)

www.readwhere.com

कर दिये जायेंगे।

तिथि : 08 सितम्बर, 2020

स्थान : दिल्ली

ई-मेल : investors@ircon.org, CIN: L45203DL1976GOI008171

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड टेलीफोन : +91-11-29565666 , फैक्स : +91-11-26854000, वेबसाइट : Web: www.ircon.org,

(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तक बुधवार, 23 सिंतम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 (दोनों

दिन शामिल) बन्द रहेगा। निदेशक मंडल द्वारा अनुशसित अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो बुधवार, 14 अक्टूबर, 2020 से उन सदस्यों को भुगतान किया जायेगा,

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की योग्यता निर्धारण हेत्

वे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट

https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध सहायता और अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न खंड

रितु अरोडा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

कार्पोरेट कार्यालयः एफ–32/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–॥, नई दिल्ली–110020

एतद द्वारा सूचित जाता है कि श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 31वीं सालान आम बैठक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') के परिपत्र संख्या 17/2020 14/2020 और 20/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 क्रमशः ('एमसीए परिपत्र')और भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड के द्वारा जारी किये गए सेबी परिपत्र संख्या

सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम

दूरस्थ ई-वोर्टिंग की अवधि 27 सितंबर, रविवार को सुबह 10.00 बजे से शुरू होकर मंगलवार

2014 के नियम 20 और सेबी (स्चीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों को एजीएम सूचना में दिए गए

अपना वोट ड्राल् सकते हैं। 29 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रोंनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद सीडीएसएल द्वारा

वोटिंग सुविधा के माध्यम से पुनः मतदान नहीं कर सकते।

कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेष्ण की तिथि के बाद कंपनी के शेयरों का

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कपया अपना नाम, फोलियो नंबर, ई-मेल पता, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन

प्रतिभागियों के माध्यम से अपना ईमेल पता अपडेट करें।

मंजिल, मैराथन पंयुजनएक्स, मफर्तलाल मिल कम्पाउंडस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542 पर कॉल करें। एजीएम के समापन से 48 घंटे के भीतर मतदान के परिणाम घोषित किए जाएंगे और समेकित

दीपक सीएस स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव दिनांक: 07.09.2020 कम्पनी सचिव

डीमैट धारिता

Sadhna Broadcast Limited (Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited) (E) cbnl.delhi@gmail.com. (W)www.sadhnabroadcast.com CIN: L92100DL1994PLC059093. Phone: 91-11-23552627

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 14th September, 2020 at 03.00 P.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results. for the Quarterended30"June, 2020and any other businesses as may be considered necessary By order of the Board For Sadhna Broadcast Limited

Sharpline Broadcast Limited (Formerly known as Archit Holdings & Credits Limited) Regd. Office: 37th, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi-110055 (E) sharplinebroadcastlimited@gmail.com, (W)www.sharplinebroadast.in CIN: L22100DL1990PLC039464,

Phone: 011-23552627 office address of Prensent LLP i NOTICE shifted from A-31/165-F, Gali No. Pursuant to Regulation 29 read with Regulation Maujpur, Delhi, Delhi - 110053 to 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 11/112 A, Sector 3, Rajendra Nagar Requirements) Regulations, 2015, notice is Sahibabad, Ghaziabad - 201005, Ph hereby given that a meeting of the Board of +91-9643725930, Directors of the Company will be held on Monday,14th September, 2020 at 04.30 P.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the UnauditedFinancial Results for quarter ended30* June, 2020 and any other businesses as may be considered necessary. Date: 7th September, 2020 By order of the Board

4-A-2B. Dadabari Ext Kota Rajasthan 324009

Place: Delhi For Sharpline Broadcast Limited (Paras Shah) Director DIN:07070206

sd/

Prensent LLP Nidhi Services Limited A-31/165-F, Gali No. 5, Maujpur, Delhi, Delhi – 110053 Read, Office: 5/19-B. Roop Nagar, Delhi - 110007 CIN: L65999DL1984PLC018077

> NOTICE Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE in hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 14th September, 2020, at 2.00 P.M at 5/19-B Roop Nagar, Delhi - 110007 inter alia, to consider approve and take on record the Unaudited inancial Results of the Company for the guarte ended 30th June 2020 Further, details are also available on Company's

website i.e www.nidhiservicesltd.com as well a website of the Calcutta Stock Exchange i.e. www.cse india.com and Metropolitan Stock Exchange of India Limited i.e https://www.msei.in/. For Nidhi Services Limited

Udit Agarwa

Whole Time Director Place : Delhi DIN No.: 0023911 Dated: 08.09.2020



INDIAN SUCROSE LIMITED

(FORMERLY: OSWAL SUGARS LIMITED) CIN: L15424PB1990PLC010903

Registered Office: G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211 Phone: +91+9115110651/52. Fax: +91+1883-244532

NOTICE TO THE MEMBERS OF 29™ ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 29th (Twenty Ninth) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Indian Sucrose Limited will be held on Wednesday, 30 September 2020 at 10:00 am (IST), through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 08 April 2020, 13 April 2020 and 05 May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBITHOICFO/CMBDI1/CIRIPS 2020/79 dated 12 May 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular'), without the physical presence of the Members at a common venue.

. The Notice of 29" AGM and the Annual Report of Indian Sucrose Limited for the year 2019-20 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular, Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.muksug.com and the website of BSE Limited i.e.

24" September, 2020 to 30 September, 2020 (both the days inclusive) for the purpose of AGM.

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility ('remote e-Voting') in the Notice of the AGM.

For Indian Sucrose Limited

Place: Mukerian

By order of the Board

Nivedan Bharadwaj

Managing Director

(DIN-00040191)

For Fortune International Limited

Company Secretary

FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED

Veer Sawarker Block, Vikas Marg, Shakerpur, Delhi- 110092. NOTICE OF THE 27th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company is schedule to be held on Tuesday, 29th Day of September, 2020 at 11:00 AM through Video Conferencing "(VC)" / Other Audio Visual Means (OAVM) without physical presence of members at common venue. The Notice setting out the Businesses to be transacted at the meeting together with a copy of Annual Report of the Company for financial year 2019-20 has been sent to all members at their

in view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the "AGM" through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. Accordingly, in compliance with the provisions of the Companies Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and MCA Circulars, the Annual General Meeting of the Company will be held through VC / OAVM where physical attendance of Members has been dispensed with. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by our RTA i.e. Link

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for financial year 2019-20 has been sent to all members whose email IDs are registered with Company/Depositories/Depository Participants in accordance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circular. Members may also note that the Notice of the Annual General Meeting and Annual Report also available on the Company's website at www.fcsltd.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the Annual General Meeting in respect of the ousiness to be transacted at the Annual General Meeting and for this purpose, the Company has appointed Insta Vote (http://www.instavote.linkintime.co.in) for facilitating voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notic

Commencement of remote e-Voting	From 9.00 a.m. (IST) on Saturday, September 26, 2020
End of remote e-Voting	Upto 5.00 p.m. (IST) on Monday, September 28, 2020

The remote e-Voting module shall be disabled by Service Provider for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said

 The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paidup equity share capital of the Company as on Tuesday, September 22, 2020 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the Annual General

c. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2020 may follow the same instructions as mentioned above for e-voting. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;

also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again. Registration of e-mail addresses:

Members who have not registered their email address so far, Refer Note No. 16 of the AGM

Book Closure:

under, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 23, 2020 to Thursday, September 24, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 27th Annual General Meeting.

PROCEDURE FOR SPEAKER REGISTRATION AND TO RAISE QUESTIONS / SEEK

CLARIFICATIONS WITH RESPECT TO ANNUAL REPORT: Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may

register themselves as a speaker by sending a request in the below given form from their Registered Email ID to agm20@fcsltd.com till Friday, September 25, 2020, Only those member who have registered themselves as a Speaker will be allowed to express their riews/ask questions during the AGM.

speakers, as appropriate for smooth conduct of the AGM.

Shareholders, who would like to express their views/have questions, may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email mobile number at agm20@fcsltd.com. The same will be replied by the Company

Queries / Issues connected with remote e-Voting: In case shareholders/ members have Ms. Harsha Sharma, Company Secretary at Corporate Office FCS House, Plot no. 83, NSEZ. 4635900 or e-mail at investors@fcsltd.com.

For FCS Software Solutions Limited

Harsha Sharma

STEEL STRIPS WHEELS LIMITED Rasandik Engineering Industries India Limited

Registered Office: 14 Roj-Ka-Meo Industrial Area, Sohna, Haryana - 122 103 CIN: L74210HR1984PLC032293 www.rasandik.com

NOTICE OF BOOK CLOSURE

Pursuant to the Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013, Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive) fo the purpose of 36th Annual General Meeting to be held on September 30, 2020 For Rasandik Engineering Industries India Limited

Date: September 8, 2020 Pradeep Chandra Nayak Place: Sohna, Haryana Company Secretary

TINNA TRADE LIMITED

Regd. Office: No. 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Tel.: 011-49518530 Fax: 011-26804883, E-mail: investor.ttl@tinna.in, www.tinnatrade.in

Corporate Identity Number: (CIN: L51100DL2009PLC186397)

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 30th September, 2020 at 12.30 P.M. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business, as set out in the Notice convening the said AGM.

In accordance to the general circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 and 05th May, 2020 and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular dated 12th May , 2020, the 12th Annual report for the FY 2019-20, containing the Notice of the 12th AGM of the company along with its annexures and annual accounts of the company for the Financial Year 2019-20 are being sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the company/ Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants (DP). The requirement of sending physical copies of Annual Report has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI circulars.

The e-copy of the notice of the AGM along with Annual Report of the company is available on the website of the company at www.tinnatrade.in and may also be assessed from the relevant section of the website of Bombay Stock Exchange (BSE) at www.bseindia.com. The AGM notice is also available at the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

MANNER OF REGISTERING JUPDATING EMAIL ADDRESSES:

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/updated their email address are requested to register/ update the same by writing to Alankit assignments Limited (RTA) at: rta@alankit.com along with copy of signed letter mentioning. Name of the shareholder, Folio No., address, no. of shares held along with scanned copy of share certificate (front and back), self- attested copy of PAN card, self- attested copy of Aadhar & copy of cancelled cheque.

Members holding shares in dematerialized mode and who have not yet registered (updated their email address are requested to get their email address registered/updated with their respective Depository participants.

BOOK CLOSURE

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 23, 2020 (Wednesday) to September 30, 2020 (Wednesday) (both days Inclusive). INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the company is providing to its members the facility of remote e-voting before the AGM , e-voting during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting and e-voting at AGM are given in the notice of AGM and also available at the website of NSDL Members are requested to note the following: (a) The remote e-voting shall commence on September 26, 2020 at 10.00 a.m. (IST) and shall

end on September 29, 2020 at 5.00 p.m. (IST); The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said (b) The voting rights of the members will be in proportion to their share of the paid-up capital of

the company as on September 23, 2020 (Cut Off date). The facility of remote e-voting shall

also be available during the meeting and the members attending, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting. A person whose name is recorded in the Register of members / Register of beneficial owners as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting before/during the AGM. Any person who acquires shares or becomes a member of the Company after dispatch of the

Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2020, may obtain the login ID and password for e-voting by sending a request to NSDL at their email ld. evoting@nsdl.co.in or may contact their toll free number: 1800-222-990. The members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will

have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during AGM. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

By order of the Board For Tinna Trade Limited

Monika Gupta

Company Secretary

Place: New Delhi Date: 08-9-2020

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD. Corporate Office: C/515, Kanakia Zillion, Junction of LBS Road and CST Road BKC Annexe, Near Equinox, Kurla (West), Mumbai - 400070. Tel.: 022 - 26544000.

Regd. Office: 9, M.P. Nagar, 1st Street, Kongu Nagar Extn, Tirupur - 641607. Ph No.: 0421222114 MR. DINESH KUMAR (PROPRIETOR OF M/S. GURUJI AUTO INDUSTRIES)

A-317, Dabua Nawada Road, Near Bharat Gas Agency, Faridabad, Haryana - 121001.

MR. DINESH KUMAR (GUARANTOR)

H.No. P-189, Krishan Vihar, Sultanpuri, Delhi - 110066.

MR. DILEEP KUMAR (GUARANTOR) H.No. 8/16, H-19, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad - 201005.

Notice under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act") 1) At the request of M/s. Guruji Auto Industries (hereinafter referred to as "the Principal

Borrower"), having Registered Office at. Plot No. A-317, Dabua Nawada Road, Near Bharat Gas Agency, Faridabad, Harayana - 121001, Term Loan Facility of Rs. 54,48,818/ (hereinafter collectively referred to as "Loans") were granted by L&T Finance Ltd (herein referred to as L&T) on terms and conditions contained in the sanction letter dated

2) You, being the borrower to the Loans, hypothecated the movable properties in favour of L&T more particularly described in the schedule annexed hereto and marked as Annexure -1 hereunder by way of first charge. Aforesaid Loans were not paid and remain undischarged. As a result, L&T had classified

the account as Non-Performing Assets with effect from December 24, 2016 in accordance with the directives and guidelines relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India.

4) Further, L&T has absolutely assigned the Loans / debts due and payable by the Principa Borrower arising out of the Loans along with the underlying securities, including all securities, mortgaged, personal guarantees associated therewith, if any, in favour of Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd. (OARPL), acting in its capacity as the Trustee o the Omkara PS- 10/2019-20 Trust vide Assignment Agreement dated September 24 2019. Please note that OARPL is a Securitisation and Reconstruction Company

registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the SARFAESI Act 2002. 5) Pursuant to the said assignment all right, title and interest, benefit in and to the Loans together with any incidental right thereto including the assignment of and benefits under the financial instruments relating to the Loans were assigned in favour of OARPL along with the underlying securities. As per the said Assignment Agreement, OARPL has become the full and absolute owner and as such the only person legally entitled to receive the repayment of the Loans or any part thereof including the right to file a suit or institute such other proceedings in its own name and to take such other action as may be

6) In view of your inability to meet your liabilities in respect of the Loans duly secured by various securities described in Annexure - 1 and classification of your account as a nonperforming asset, we hereby give fresh notice to you, the above addressee, under Section 13 (2) of the SARFAESI Act and call upon you to make payment of the aggregate amount of Rs. 96,29,474/- (Rupees Ninety Six Lakh Twenty Nine Thousand Four Hundred Seventy Four only) as on July 28, 2020 as per details set out in the Annexure-2 hereto, being the outstanding amount due under the Loans as on July 28, 2020. You are hereby called upon to pay the aforesaid amount together with interest thereon @18% p.a compounded with monthly rests till repayment and/or realization within a period of 60 days from the date of this notice.

required for the purpose of recovery of the Loans as an assignee.

If you fail to make the said payment pursuant to this notice within the said period of 60 days, then, we shall be free to exercise all or any of the rights under Section 13 (4) of the SARFAESI Act for enforcement of security interests more particularly described in Annexure-1 hereto, without the intervention of any court or tribunal, entirely at your risk costs and consequences, which please note. 8) We invite your attention to Section 13 (13) of the SARFAESI Act in terms of which you are

barred from transferring any of the secured assets described in Annexure-1 or any part thereof, whether by way of sale, lease or otherwise (except in the ordinary course of business) without the prior written consent of OARPL. Please note that non-compliance with the above provision contained in Section 13 (13) of the SARFAESI Act is an offence punishable under Section 29 of the SARFAESI Act. 9) Please note that this demand notice is without prejudice to and shall not be constituted

as waiver of any other rights or remedies which OARPL may have including without limitation, the right to make further demands in respect of sums owing to OARPL Yours faithfully, (Chief Manager & Authorized Officer) Date: 09.09.2020

Omkara Assets Reconstruction Private Limited Place: Mumbai Acting as a Trustee for the Omkara-PS 10/2019-20 Trust Annexure - 1 **Details of Secured Assets**

Particulars Silent DG Set 82.5 KVA Three Phase 2 CNC Lathe Machine - Model Vx165 - 3 Nos.

Annexure - 2 Statement of Dues as on 28.07.2020 **Particulars** Amount Dues as on 31.08.2019 as per Assignment Agreement 81,85,057/-Add: Interest @18% p.a. 14,44,417/-96.29.474/-Total as on 28.07.2020

CIN: L27107PB1985PLC006159

Regd Off: Village Somalheri/ Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Derabassi, Distt. Mohali (Pb.) Tel: +91-172-2793112. Fax: +91-172-2794834 Email: ssl_ssg@glide.net.in. Web Site: www.sswlindia.com NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING,

BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 3:30 p.m. through Video Conferencing(VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular(GC) No. 20/2020 dated 05.05.2020 read with GC No. 17/2020 dated 13.04.2020 and GC No. 14/2020 dated 08.04.2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRIP/2020/79 dated 12.05.2020 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) and all other applicable laws and circulars issued by the MCA and SEBI to transact the ordinary and special business mentioned in the notice convening the said AGM. Members attending the 34th AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The venue of the meeting

shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Village Somalheri/Lehli P.O.

In compliance with the circulars referred to above, electronic copies of the Annual Report (AR)

for FY 2019-20 along with Notice of said AGM and the explanatory statement under section 102

Dappar, Tehsil Derabassi, Distt. S.A.S Nagar Mohali, Punjab.

of the Companies Act, 2013 (Act) in respect of special business have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s)/RTA. These documents are also available for download on the Company's website www.sswlindia.com, websites of stock exchanges viz BSE Ltd. And NSE Ltd. Further, Notice of the AGM is available on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL) at www.linkintime.co.in , the agency engaged for providing remote e-voting and e-voting facility at the AGM through VC/DAVM. The electronic dispatch of the Notice of the AGM through e-mails has been completed on September 07, 2020. Further notice is given that pursuant to Section 91 of the Act read with relevant rules thereunder

and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive), for the purpose of AGM. In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Section 108 of the Act

read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time, the Company is pleased to provide its members, the facility to exercise their right to vote on resolutions mentioned in the AGM Notice by electronic means through "Remote e-voting" or by "e-voting system at the AGM" services, provided by LIPL through their e-voting website "InstaVOTE". The remote e-voting shall be open from September 27, 2020 from 9.00 a.m. (IST) to September 29, 2020 to 5.00 p.m. (IST) (both days inclusive). The remote e-voting shall not be permitted

beyond the said time and the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. The Members, whose names will appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners on the close of the day on Wednesday, September 23, 2020 (cut-off date), attending the AGM are entitled to exercise their voting right at the meeting electronically, in case they have not already

cast their vote by 'Remote e-Voting'. Members who have cast their vote by Remote e-Voting are entitled to attend the AGM through VC, but they cannot cast their vote again during the AGM. Please read the instructions mentioned in the notice of the 34th AGM for remote e-voting and e-voting at the AGM through VC/DAVM. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain User Id and password by sending an e-mail to the company at ssl_ssg@glide.net.in or LIIPL at enotices@linkintime.co.in by mentioning his or her Folio No./DP Id and Client Id No. The detailed procedure for obtaining User Id and password

LIIPL and also on Stock Exchanges. However, if the member is already registered with InstaVOTE for remote e-voting, he can use his/her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. Members who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their email addresses by following the process mentioned below:

is provided in the notice of the meeting which is available on the website of the Company and

(i) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to

or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to ssl ssg@glide.net.in. Notice of the said AGM, E-voting instructions and Remote e-voting instructions are available on

(ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID + Client ID (16 digit DPID + CLID

the Company's website, on the website of LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in and also on the stock exchanges website. In case the shareholders have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to

enotices@linkintime.co.in or Call us :- 022 - 49186000. In case shareholders have any gueries regarding login/e-voting, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on:

Tel: 022-49186175. For STEEL STRIPS WHEELS LIMITED Place : Chandigarh (Shaman Jindal)

Date: 08.09.2020 CGM-cum-Company Secretary SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

CIN: L01112UP1989PLC011004 Corporate office: F-32/3, Okhla Industrial Area, Phase- II, New Delhi-110020 Registered Office: A-26 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahar, U.P.-203205

Email id: secretarial@shrigangindustries.com, website:-www.shrigangindustries.com Contact No: 05735-222568/011-42524454 NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING,

BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the

members of M/s Shri Gang Industries and Allied Products Limited will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 03.30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to ransact the business as set out in the Notice of 31" AGM in accordance with the MCA circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 espectively ("MCA Circulars") read with SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular").

The Notice of AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-2020 along with login details for joining the AGM through VC. OAVM facility including e-voting has been sent on Monday, September 07. 2020 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also available on Company's website (www.shrigangindustries.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of CDSL (www.evotingindia.com).

Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through services provided by Central Depository Services Limited

The remote e-voting period will commence at 10.00 a.m. on Sunday, September 27, 2020 upto 5.00 p.m. on Tuesday, September 29, 2020 During this period, Members may cast their vote electronically. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 29, 2020. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the

AGM may also participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall

not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Once the member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote evoting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the

Notice of AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on September 23, 2020 ('cut-off date'). Any person, who is a member of the

Company as on cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or e-voting at the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only. A person who has acquired shares and becomes a member of the Company after the electronic dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cutoff date, may obtain the login ID and password by

sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. Members who are holding shares in physical form or have not registered heir e-mail address with the Company/Depositories can obtain login

credentials for e-voting as per the following procedure: . For members holding shares in physical form, kindly provide your name, folio number, e-mail address to be registered alongwith scanned

copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar card by email to the Company at secretarial@shrigangindustries.com.

 For members holding shares in demat form, please update your e-mail address through your respective Depository Participant/s. you have any query relating to e-voting facility, please refer the

Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or contact CDSL on 022-23058542. In case of any grievances connected with e-voting facility, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542.

The results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of AGM and the results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and the website of CDSL

The Company has been allotted ISIN (INE241V01018) for dematerialization of the company's shares. All the members are requested to kindly get their shares dematerialized.

For Shri Gang Industries and Allied Products Limited Kanishka Jain Place: New Delhi (Company Secretary) Date: 07.09.2020

Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055 NOTICE

Place: New Delhi (Tajinder Kaur) Date: 07.09.2020 Managing Director

DIN: 06799570 24/27 Front Side, West Patel Nagar

ANANT RAJ LIMITED CIN: L45400HR1985PLC021622

Place: New Delhi

Date: 07.09.2020

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 14th day of September, 2020, at the Head Office of the Company at H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001 inter alia, to consider, approve and take on record the unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter ended June 30, 2020. The said intimation is also available on the website of the Company at www.anantrajlimited.com and on the website of the Stock Exchanges viz,

Date: 08-09-2020

INTERNATIONAL LIMITED will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 10:00 a.m. at Amarai Farms, Khasra No. 375, Village Kapashera, near Police Chowki, Old Delhi- Gurgaon road, Kapashera, New Delhi-110037 to transact the business as set out in the Notice of AGM. As per SEBI Notification No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, electronic copies of the Notice of 38th AGM and Annual report for the year 2019-20 have been sent

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Shareholders of FORTUNE

The Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from the purpose of AGM.

by electronic means: The remote e-voting facility shall commence on Sunday, September 27, 2020 (09:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, September 29, 2020 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time

The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is September 23,

existing user ID and password can be used for casting vote.

Member may note that (a) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM, (b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again, (c) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote

www.fortuneinternational.in/www.bseindia.com for download. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members, available at downloads section o www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

Date: 08.09.2020

OMANSH ENTERPRISES LIMITED CIN: L21011DL1974PLC241646

E-mail: omanshwork@gmail.com

NOTICE OF 46TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 46" Annual General Meeting ('AGM") of the members of Omansh Enterprises Limited(the "Company") will be held through Video Conference(VC) and other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, 30, 2020 at 11.00 a.m. at 04.00 P.M, in compliance with circular number 20/2020 dated May 05,2020 read with Circular numbers 14/2020 dated April 08,2020, 17/2020 dated April 13,2020 and all other applicable laws and circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12,2020 issued

by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the businesses as set forth in Notice of the AGM. Electronic copies of the Notice of the 46th AGM, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report 2019-20 have been sent on September 8, 2020 to all

In accordance with the said circulars Notice of 46th Annual General Meeting along with Copy of Annual report for financial year 2019-20 is available on Company's Website www.omanshenterprises.in website of stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.comand on the website of Central Depository Services Limited(CDSL) at www.evotingindia.com.

those members whose email IDs are registered with the Company/Depository.

will remain closed from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive). The Instructions for participating through VC and the process of e-voting, including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their email address can cast their vote through e-voting, are provided as part of the

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, notice is further given that: -(a) The Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. The facility of casting votes by a

voting and are present on the AGM through VC, Shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. (b) The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 27, 2020 at 9.00 a.m. and end on Wednesday, September 29, 2020 till 5.00 p.m., both days inclusive. Remote e-voting shall not allowed beyond 5.00p.m. on September 29,2020 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member

shall not be allowed to vote again or change the vote subsequently. (c) The Company has fixed Friday, September 23, 2020, as the cutoff date/entitlement date for identifying the Shareholders for determining the eligibility to vote by (d) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off/ entitlement

date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting

at the Annual General Meeting. Any person who becomes a member of the Company

after the date of this Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off

date i.e. Wednesday, September 23, 2020, may obtain the User ID and Password

by sending an email request to www.omanshenterprises.in. Members may also

call on +916283364410 or send a request to Mr.Raineesh Thakur, Company Secretary, by writing to him at Omansh Enterprises Limited at Unit Shop No. QD-37, DDA Market, Pitampura New Delhi 110034. (e) Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository and in respect of shares held in Physical Form by writing to the Company's Registrar and

(f) In case of you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help desk section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com. In case the shareholders have any grievances connected with the voting by Remote e- Voting or through electronic means at AGM the Shareholder may also call on +916283364410 or send a request to www.omanshenterprises.in. Members may also call on +916283364410 or send a request Mr. Rajneesh Thakur, Company Secretary, by writing to him at Regency Investments Limited at Shop No. Qd-37, DDA Market, Pitampura New Delhi 110034.

> RAJNEESH THAKUR COMPANY SECRETARY

By the order of Board of Directors

contactus@prensent.com All future correspondence should be made For Prensent LLP Nirmal Jain (Designated Partner)

Ph: +91-9643725930

LLP IN: AAJ-8444

Public Notice

Designated Partners of the Partnership

firm are requested to take note that the

E-mail

Email: isl.investor@yaducorporation.com, Website: www.muksug.com

www.bseindia.com.

The Register of Members and Share Transfer Books shall be remain closed from

NSDL to all its Members from Sunday, 27th September, 2020, 09:00 P.M (IST) to Tuesday 29th September, 2020, 05:00 PM (IST) to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of voting through remote e-Voting system during the Meeting. Detailed procedure for remote a-Voting before the AGM / remote e-Voting during the Meeting will be provided

Date: 08.09.2020 Anamika Raju

> (CIN No. L72100DL1993PLC179154) Registered Office: 205, 2nd Floor, Agrawal Chamber IV, 27,

Intime India Private Limited.

Remote e-Voting:

ce of the Annual General Meeting. Memb The remote e-Voting facility would be a	HELDER CONTROL (1981) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Commencement of remote e-Voting	From 9.00 a.m. (IST) on Saturday, September 26, 2020
nd of remote e-Voting	Upto 5.00 p.m. (IST) on Monday, September 28, 2020
	그리가 맞는데 그렇게 하는데 보다가 하는데 보면 하는데

d. Members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed there

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Arora Shekhar & Company, Company Secretaries, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure in a fair and

The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of

any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and instaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000 or contact Noida Dadri Road, Phase II, Gautam Buddha Nagar, Noida- 201 305, or at phone no. 0120-By the order of the Board of Directors

Date: 07/09/2020 Place: Noida

(Company Secretary)

Sr. No.

Aggregate outstanding amount to Rs. 96,29,474/- (Rupees Ninety Six Lakh Twenty Nine Thousand Four Hundred Seventy Four only) as on July 28, 2020. Please note that this is in addition to interest thereon @18% p.a compounded with monthly rests till repayment and/or realization.

New Delhi

By order of the Board of Directors of

(Formerly ANANT RAJ INDUSTRIES LIMITED) Regd. Office: Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana-122051 Head Office: H-65, Connaught Circus, New Delhi - 110001 Anant Raj Group Ph.: 011-43034400, 011-23324127, Telefax : 0124-4265817 E-mail: manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com NOTICE Notice is hereby given pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of

BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India

Limited at www.nseindia.com For Anant Raj Limited. Manoj Pahwa Place: New Delhi (Company Secretary) A-7812

FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED Regd. Office: G-4 Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110 028 Tel: 011-25774212-214, Email id: rekha.srivastava2016@gmail.com CIN: L52324DL1981PLC012033 NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

to all the Shareholders whose email ID's are registered with the Company's RTA, Purva Share

Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of the 38th AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM 'remote e-voting'), provided by NSDL. All the members are informed that: The ordinary Business as set out in the notice of 38th AGM may be transacted through voting

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date, i.e. September 23, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in . However, if a Person is already registered with NSDL for e-voting, then

e-voting as well as voting at the AGM through Ballot paper. The Notice of 38th AGM is available on the Company's and BSE's Website

Place: New Delhi

Registry (India) Private Limited.

Regd. Office: SHOP NO. QD-37, DDA MARKET, PITAMPURA NEW DELHI 110034

Pursuant to the Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company

Notice of the 46th AGM

member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. Members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again. Members, who have not cast their vote through remote e-

Share transfer Agent ("RTA"), Shop No. Qd-37, DDA Market, Pitampura New Delhi North West DI 110034

PLACE: NEW DELHI

DATE: SEPTEMBER 09, 2020

financialexp.epap.in

For Omansh Enterprises Limited